

EF206/EL206

Roll No. : .....

Date : 2019

## WAVE PROPAGATION & COMMUNICATION ENGINEERING

निर्धारित समय : तीन घण्टे]

[अधिकतम अंक : 70]

Time allowed : Three Hours]

[Maximum Marks : 70]

नोट : (i) प्रथम प्रश्न अनिवार्य है, शेष में से किन्हीं पाँच के उत्तर दीजिये।

Note : Question No. 1 is compulsory, answer any FIVE questions from the remaining.

(ii) प्रत्येक प्रश्न के सभी भागों को क्रमवार एक साथ हल कीजिये।

Solve all parts of a question consecutively together.

(iii) प्रत्येक प्रश्न को नये पृष्ठ से प्रारम्भ कीजिये।

Start each question on fresh page.

(iv) दोनों भाषाओं में अन्तर होने की स्थिति में अंग्रेजी अनुवाद ही मान्य है।

Only English version is valid in case of difference in both the languages.

1. (i) मॉड्युलेशन को परिभाषित कीजिए।

Define the modulation.

- (ii) क्रान्तिक आवृत्ति से क्या अभिप्राय है ?

What do you mean by critical frequency ?

- (iii)  $\frac{3\lambda}{2}$  भूसम्पर्कित द्विधुत्व का रेडियोशन पैटर्न बनाइये।

Draw radiation pattern of  $\frac{3\lambda}{2}$  grounded dipole.

- (iv) संकर वार्टा से क्या अभिप्राय है ?

What do you mean by cross talk ?

- (v) रेडियो अभिग्राही की तद्रूपता (फीडीलिटी) को परिभाषित कीजिए।

Define fidelity of radio receiver.

2. (i) वेरेक्टर डायोड एफ एम मॉड्युलेशन का सचित्र वर्णन कीजिए।

Draw &amp; explain the varactor diode FM modulator.

- (ii) अनुपात विवेचक परिपथ का सचित्र वर्णन कीजिए।

Draw &amp; explain ratio detector circuit.

3. (i) भूसम्पर्कित तथा भूवियोजित एन्टीना की मध्य रेडियोशन पैटर्न तुलना कीजिए।

Compare grounded &amp; ungrounded antenna with their radiation patterns.

- (ii) ज्यावक्रीय आयाम मॉड्युलेट संकेत के लिये प्रभावी विभव तथा धारा की गणना कीजिए तथा ए.एम. के लिये कुल शक्ति का सूत्र ज्ञात कीजिए।  
Calculate effective voltage & current for sinusoidal amplitude modulated signal & also calculate total power for AM. (6x2)
4. (i) कला विस्थापन विधि प्रयुक्त कर एस एस बी जनित्र की कार्यप्रणाली का सचित्र वर्णन कीजिए।  
Draw & explain the working of SSB generator using phase shift method.  
(ii) रख वर्गीकरण की व्याख्या कीजिए।  
Discuss the classification of noise. (6x2)
5. (i) एफ एम जनित्र हेतु प्रत्यक्ष तथा परोक्ष विधि की सचित्र तुलना कीजिए।  
Compare direct & indirect methods of FM generator with neat diagram.  
(ii) समस्वरित (ट्यून्ड) रेडियो आवृत्ति अभिग्राही का सचित्र वर्णन कीजिए।  
Draw & explain tuned radio frequency receiver. (6x2)
6. निम्न पदों को परिभाषित कीजिए :  
Define the following terms :  
(i) पुंज चौड़ाई  
Beam width  
(ii) स्किप दूरी  
Skip distance  
(iii) पश्च प्रबलन  
De-emphasis  
(iv) दिशिक लब्धि  
Directional gain (3x4)
7. (i) व्योम तरंग संचरण का सचित्र वर्णन कीजिए तथा इस पर भू-चुम्बकीय क्षेत्र का प्रभाव समझाइए।  
Draw & explain sky wave propagation with the effect of earth magnetic field over it.  
(ii) विकिरण संचरण की सचित्र व्याख्या कीजिए।  
Discuss scatter propagation with neat diagram. (6x2)
8. निम्न में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए :  
Write short notes on any two of the following :  
(i) एफ एम प्रेषक  
FM Transmitter  
(ii) अति संकर अभिग्राही  
Super heterodyne receiver  
(iii) लॉग पीरियोडिक और  
Log periodic array (6x2)